

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E) Mumbai- 400 051

SRF/SEC/AGM-51/2022

29th June. 2022

Dear Sir,

Sub: Publication of Notice of 51st Annual General Meeting- SRF Limited

In Compliance with Regulation 30(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of Newspaper publication regarding Information of fifty-first AGM and e-voting published in Financial Express (English) and Jansatta (I-lindi) newspaper, in connection with aforesaid AGM. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at <a href="https://www.srf.com">www.srf.com</a>

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **SRF LIMITED** 

Rajat Lakhanpal

VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl: A/a

SRF LIMITED

Block-C Sector-45 Gurugram 122 003 Haryana India Tel: +91-124-4354400 Fax: +91-124-4354500 E-mail: info@srf.com Website: www.srf.com

Regd. Office: Unit No. 236 & 237, 2nd Floor DLF Galleria, Mayur Place Noida Link Road Mayur Vihar Phase-1 Extension Delhi 110091

#### MEENAKSHI ENTERPRISES LIMITED CIN: L51102TN1982PLC009711

Registered Office: Portion No. F, Old No.24, New No.45, 2nd Floor, Venkata

Maistry Street, Mannady, Chennai - 600001, Tel: 044-4864 4050, E-mail: investor@melnbfc.com, Website: www.melnbfc.com

CORRIGENDUM TO THE POSTAL BALLOT NOTICE DATED 16TH JUNE, 2022 We Draw the attention of all the Members of Meenakshi Enterprises Limited to the Postal Ballot Notice dated 16th June, 2022.

In the above Postal Ballot Notice an item relating to placing of a Certificate issued Mr. Vinay Kumar Jain partner of Mahesh C. Solanki & Co., Chartered Accountants confirming the Compliance of Regulation 45 (1) of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been inadvertently omitted to be included in the Explanatory Statement attached to the Postal Ballot Notice.

The omitted para in the explanatory statement reproduced Below:

The Company has obtained a Certificate issued from Mr. Vinay Kumar Jain partner of Mahesh C. Solanki & Co., Chartered Accountants Dated 16th June, 2022 confirming the Compliance of Regulation 45(1) (a)(b)(c) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as Below: a) A time period of at least one year has elapsed from the last name change of the

Company i.e., "MEENAKSHI ENTERPRISES LIMITED"-The Company has not changed its

 At least fifty percent of the total revenue in the preceding one-year period has been accounted for by the new activity suggested by the new name; -Not Applicable since the company has not involved in any new business.or

the amount invested in the new activity/project is at least fifty percent of the assets of the listed entity-Not Applicable since the Company has not taken up any new

Please Note that there are no other modification in the Postal Ballot Notice Dated 16th June, 2022. This Corrigendum should be read along with the Postal Ballot Notice Explanatory Statement. The revised Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.melnbfc.com.along with the abovementioned certificate of Chartered Accountant

Disola Jose Koodaly Place: Chennai Date: 28.06.2022 Company Secretary and Compliance Officer

BY ORDER OF THE BOARD

### **WELCAST STEELS LIMITED**

(CIN: L27104GJ1972PLC085827) Regd. Office: 115-116, G.V.M.M. Estate. Odhav Road. Odhav.

Ahmedabad - 382 415. Website: www.welcaststeels.com; email: info@welcaststeels.com Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077.

NOTICE TO SHAREHOLDERS TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF)

Notice is hereby published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the IEPF Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from 7th September, 2016 as amended from time to time.

The IEPF Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven or more consecutive years in the name of Investor Education Protection Fund:

Accordingly, individual communication has been sent to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their available address. The Company has also uploaded the details of such shareholders and their shares due for transfer to IEPF on its website at http://www.welcaststeels.com/newsite/IEPF.html Shareholders can verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF from the website.

Shareholders are requested to note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF including all benefits on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the IEPF Rules.

The Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of the transfer of shares to IEPF as per the IEPF Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Further, the Shareholders holding shares in dematerialised form and whose shares are liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority, may note that the Company shall transfer the shares after following procedure prescribed in Rules. The Shareholders may further note that details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to Demat Account of IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.

Please take note that due date for claiming dividend for Financial Year 2014-15 is 28th October, 2022, so Shareholders are requested to claim unpaid dividend on or before 27th October, 2022 failing which the Company will be compelled to transfer the shares to the IEPF without any further notice, with a view to complying with the

requirements set out in the IEPF Rules. For any clarification on the matter, please contact the Company's Registrar and Transfer Agent: Bigshare Services Private Limited, Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400 093. Tel. 022-62638200: Email: investor@bigshareonline.com., website

www.bigshareonline.com. For Welcast Steels Limited Date: 28.06.2022

Place: Ahmedabad

S. N. Jetheliya Company Secretary

### **Фтелаs** Tejas Networks Limited<sup>™</sup>

Corporate Identity Number: L72900KA2000PLC026980 Registered Office: J.P. Software Park, Plot No. 25, Sy. No. 13, 14, 17 & 18, Konnapana Agrahara Village, Begur Hobli, Bengaluru-560 100, Karnataka Tel.: +91-80-4179 4600 | Fax: +91-80-2852 0201

Website: www.tejasnetworks.com | E-mail: corporate@tejasnetworks.com

### NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Tejas Networks Limited (the "Company") will be convened to be held on Tuesday, July 26, 2022 at 4.00 P.M. (IST) through the Video-Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance to the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars") and in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, to transact the business as set forth in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the fiscal 2022 will be sent in due course only by the electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agents(RTA)/ Depository Participant(s) in accordance with the aforesaid circulars. The Notice and the Annual Report will also be made available in the company's website at https://www.tejasnetworks.com/shareholders\_agm.php and on the web-sites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia. com and also on the National Securities Depositories Limited (NSDL) website https://www.evoting.nsdl.com. The Members can participate in the AGM through VC/OAVM and the procedure of participating in the AGM will be given in the Notice of the AGM.

The Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for the Members holding shares in dematerlised mode, physical mode and for the Members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the Members.

The Members holding shares in physical form are requested to consider converting their physical shares into dematerlised form for participating in the AGM and to eliminate all risks associated with the physical shares and also for the ease of portfolio management.

The process for registration of email id for obtaining Annual Report and user id/ password for e-voting:

Physical Holding: Send a request to Link Intime India Private Limited, RTA of the Company at rnt.helpdesk@linkintime.co.in providing Folio No, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self- attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant(DP) and register your email address as per the process advised by your DP.

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Company for the purposes of AGM will remain closed from July 19, 2022 to July 26, 2022 (both days inclusive). For Tejas Networks Limited

N R Ravikrishnan Company Secretary Place : Bengaluru (ACS Membership No.: 7875) Date : June 28, 2022



CORPORATE IDENTIFICATION NO. (CIN): L27102MH1994PLC152925 Regd. Office: JSW Centre, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Tel.: 022-4286 1000 Fax: 022-4286 3000 Email: jswsl.investor@jsw.in Website: www.jsw.in

### 28th ANNUAL GENERAL MEETING AND **INFORMATION ON E-VOTING**

The 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, July 20, 2022 at 11.00 a.m. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular Nos.14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021 and 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the Annual Report for the FY 2021-22 including the Notice convening the 28th Annual General Meeting (AGM) have been sent on June 28, 2022 only through electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) and is also available for download on the website of the Company i.e. www.jsw.in (under Investor tab), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, KFin Technologies Limited (KFinTech) at https://evoting.kfintech.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in accordance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations. Members have been provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting). The Company has engaged the services of KFinTech for providing facility for remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting during the AGM.

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the Members through email. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.

The e-voting portal will be open for voting from Saturday, July 16, 2022 (9 a.m. IST) to Tuesday, July 19, 2022 (5.00 p.m. IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form may cast their vote electronically through KFinTech website i.e. https://evoting.kfintech.com. The e-voting module shall be disabled by KFinTech for voting thereafter. During this period, a person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. July 13, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. July 13, 2022, may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM.

Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through Video Conference OAVM / facility and have not cast their vote through remote e-Voting are eligible to vote through e-Voting in the AGM. However, Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast of AGM by logging on the e-voting website of KFinTech at https://emeetings.kfintech.com using their secure login credentials. Instructions for the Members for attending the AGM through Video Conference is provided in the Notice of the 28th AGM.

The results of e-voting will be placed by the Company on its website: www.jsw.in within two days of the AGM and also communicated to the stock exchanges, where the shares of the Company are listed.

The resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the Annual General Meeting subject to receipt of

the requisite number of votes in favour of the resolutions.

Mr. Nilesh Shah, Practicing Company Secretary, (Membership No. FCS 4554) has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the e-voting process.

shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact as below: 1. Members holding securities in physical form and non-individual Members may contact KFintech at the toll-free No. 1800-3094-001 or contact Mr. Ramdas. G, Manager, KFin Technologies Limited by writing to einward.ris@kfintech.com and

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting, User Manual for

- evoting@kfintech.com for any clarifications. 2. Individual Members holding shares through NSDL, may contact NSDL helpdesk by writing to evoting@nsdl.co.in or by calling
- the toll-free no.: 1800-1020990 or 1800-224430. 3. Individual Members holding shares through CDSL, may contact CSDL helpdesk by writing to helpdesk.evoting@cdslindia

com or by calling at 022-23058738 or 022-23058542/43. For JSW Steel Limited **Lancy Varghese** 





### SRF LIMITED CIN: L18101DL1970PLC005197

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Mayur Vihar Phase I Extn. Delhi - 110091 Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurugram-122003 Tel. No: (+91-11) 49482870, (+91-124) 4354400 Fax: (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Email: cs@srf.com: Website: www.srf.com

NOTICE is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, July 21, 2022 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Listing Regulations, read with MCA General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021 and 02/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), and SEBI circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), to transact the business set out in the Notice of the AGM dated May 30, 2022. The Notice of the AGM and Annual Report has been sent in electronic mode to the members whose

e-mail IDs are registered with the Company's Registrar & Transfer agents KFIN Technologies Ltd/ Depository Participants. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.srf.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"), the e-voting agency at https://evoting.nsdl.com. The Company is providing its members facility to exercise their right to vote at the 51st Annual General

Meeting by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted through remote e-Voting Services provided by NSDL. The members may note the following:-

- a. The remote e-voting instructions and the manner of E-voting by members on the day of AGM holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses forms an integral part of the Notice of Annual General Meeting which is also displayed at Company's website www.srf.com and on the website of NSDL, the e-voting agency at https://evoting.nsdl.com.
- The remote e-voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the equity capital of the Company as on the cut-off date (i.e. the record date), being Thursday, 14th July, 2022. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date (i.e. Thursday, 14th July, 2022) may obtain User ID and password by sending a request at
- The remote e-voting portal will open from 9:00 a.m. on Monday, July 18, 2022 to 5:00 p.m. on Wednesday, July 20, 2022. The e-voting shall not be allowed beyond the prescribed time

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been

- sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC / OAVM. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through Depository Participant registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') for e-voting facility.
- Any grievances in respect of e-voting may be addressed to Ms. Pallavi Mhatre, Manager at email at evoting@nsdl.co.in Toll free No. 18001020990 and 1800224430. In case of any queries related to e-voting. members may also refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") available at the download section of https://evoting.nsdl.com.

The facility for voting through electronic voting system shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote E-voting shall be able to vote at the meeting through E-voting in the AGM.

Members may participate in the 51st AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.srf.com and on NSDL website www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the concerned stock exchanges i.e. BSE and NSE.

For SRF LIMITED

Date: June 28, 2022 Place: Gurugram

Rajat Lakhanpal VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

( CK BIRLA GROUP

Place: Mumbai

Date: June 28, 2022



#### switch to smart **Orient Electric Limited**

**Company Secretary** 

CIN: L311000R2016PLC025892 Registered Office:

Corporate Office:

Tel: 0674-2396930 | Fax: 0674-2396364

Unit VIII, Plot No. 7, Bhoinagar Bhubaneswar-751012, Odisha | 240, Okhla Industrial Estate Phase-III, Delhi-110020 Tel: 011-40507000 E-mail: investor@orientelectric.com, Website: www.orientelectric.com

6th Annual General Meeting of Orient Electric Limited to be held through

Video Conferencing / Other Audio Visual Means, Book Closure and Final Dividend Information Notice is hereby given that the 6th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Orient Electric Limited (the 'Company') will be held on

Monday, July 25, 2022 at 03:30 P.M., IST, through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('ORVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and General Circular number 02/2022 read along with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/ 2020, 02/2021 and 19/2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, and Circular dated May 13, 2022 read with circulars dated January 15, 2021 and May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), to transact the business set out in the Notice convening the 6th AGM.

1. The Company has engaged the services of National Securities Depositories Limited ('NSDL') as the authorised agency for conducting this AGM through VC/ OAVM and providing e-voting facility. 2. In compliance with the Circulars, Notice of the 6th AGM along with Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent only through

- electronic mode to all those members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participant(s). However, members may request for the physical copy of the Annual Report for the financial year 2021-22 by sending a request at investor@orientelectric.com if they wish to obtain the same. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Members holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ('RTA'), KFin Technologies Limited ('Kfin') at einward.ris@kfintech.com. Notice of the 6th AGM along with Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's website, at
- www.orientelectric.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-voting facility) at https://www.evoting.nsdl.com. As per the provisions of Section 103 of the Act, members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum. Members as on the cut-off date of Monday, July 18, 2022 will be able to attend the AGM through VC / OAVM by following the process as explained in the Notice of the 6th AGM. Members may cast their votes through remote e-voting at https://www.evoting.nsdl.com, by using the login credentials and passwords to be shared through email. The facility of e-voting shall also be made available during the AGM and members, holding shares either in physical or demat mode, attending the AGM and have not cast their vote by remote e-voting, will be able to vote during the AGM. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized and physical mode and also those who have not registered their email address, is being provided in the Notice of the 6th
- Registers of Directors & Key Managerial Personnel and their shareholding, Register of Members, Certificate from the Secretarial Auditors on the implementation of ESOP Scheme would be available for inspection by the members electronically on VC/ OAVM platform during the AGM, and other relevant documents referred to in the accompanying Notice calling the AGM would be available for inspection electronically on the website of the Company from the date of circulation of AGM Notice till the date of this AGM.

Manner of registering/ updating email address, bank details, dividend mandate and contact details:

- i) Members, holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address, bank details, dividend mandate for receiving dividend amount directly in their bank accounts through electronic clearing system and contact details with the Company / RTA. may get the same updated by sending a request in Form ISR-1 and other such forms as prescribed by SEBI alongwith copy of the share certificate (front and back), a canceled cheque leaf with name of the member printed thereon and self-attested copies of PAN and AADHAR to RTA at Kfin Technologies Limited, Unit: Orient Electric Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 or over email at einward.ris@kfintech.com or to the Company at investor@orientelectric.com. Form ISR-1 and other such Forms are available on the website of the Company at www.orientelectric.com in investor's section.
- ii) Members, holding shares in demat mode, who have not registered / updated their e-mail address, bank details, dividend mandate for receiving dividend amount directly in their bank accounts through electronic clearing system and contact numbers are requested to contact their Depository Participants and register / update, the same in your demat account, as per the process to be advised by your Depository Participants.

6. Book Closure and Payment of Dividend:

Date: June 28, 2022

Notice is also hereby given that as per the provisions of Section 91 of the Act read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 42 of the Listing Regulations, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, July 19, 2022 to Monday, July 25, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 6th AGM and for the payment of Final Dividend for the financial year ended March 31, 2022. The Final Dividend, if approved by the members at the 6th AGM, will be paid through electronic bank transfer mode on or before Tuesday, August 23, 2022 to those members, holding shares in physical form, whose names shall appear on the Company's Register of Members and in case of holding in demat mode whose names are furnished by NSDL and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on the close of business hours on Monday, July 18, 2022. For members who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent to their registered addresses through approved mode of dispatch.

residential status of the member and documents registered with the Company/ depositories. For the prescribed rates under various categories, the members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. A resident individual member with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H, as applicable, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Members are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident members can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, PAN, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits. Further, as per section 206AB of the Finance Act, 2021, in case a person has not filed his/her Return of Income for each of the two preceding financial years and the aggregate of tax deducted at source (TDS) including tax collected at source (TCS) in his/her case is Rs. 50,000 or more in each of these two financial years, TDS will be higher of (a) twice the rate specified in the relevant provision of the Income-tax Act; or (b) twice the rate or rates in force; or (c) the rate of 5%. The aggregate amount of TDS / TCS of Rs 50,000 in a year is not limited to TDS only on dividend income received by the

still available with the member to file the return of income and claim an appropriate refund. 8. Notice of the 6th AGM along with Annual Report for financial year 2021-22 will be sent to the members in accordance with the applicable laws on their registered email ids in due course.

For Orient Electric Limited Place: New Delhi

and Company Limited ("the Company") will be held through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, the 22nd July, 2022 at 10.00 A.M.

(IST) in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder to transact the businesses as set out in the notice of AGM, sent to the In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 respectively, in relation to "Clarification on passing of ordinary and special

A.V.THOMAS AND COMPANY LIMITED

CIN: U51109KL1935PLC000024

Registered Office: W-21/674, Beach Road, Alappuzha 688012

E-mail: avt.alapuzha@gmail.com, Website: www.avthomas.in Tel: 0477-2243624, 2243625

NOTICE OF THE 87th ANNUAL GENERAL MEETING,

**E-VOTING AND BOOK CLOSURE** 

Notice is hereby given that the 87th Annual General Meeting (AGM) of A V Thomas

resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by Covid-19", circular no. 20/2020, 02/2021 dated May 5, 2020, January 13, 2021 and May, 05, 2022, respectively in relation to 'Clarification on holding of annual general meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM)" (collectively referred to as "MCA Circulars") and permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars, the AGM of the members of the Company will be held Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for

the Financial Year 2021-2022 has been sent through E-mail communication on 28.06.2022 to those shareholders who have registered their e-mail addresses with the Company/ Cameo Corporate Services Limited (RTA) or their respective Depositories (NSDL/CDSL). Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share transfer books will remain closed from Saturday, 16th July, 2022 to Friday, 22nd July, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at investor@-Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on

08.06.2022 have recommended a final dividend of Rs.150/- per equity share. The record date for the purposes of final dividend for the Financial Year 2021-22 will be the Friday, 15th July, 2022. The final dividend, once approved by the shareholders in the ensuing AGM will be paid on or before 20th August, 2022, electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, demand drafts/Cheque will be sent out to their registered addresses. To avoid delay in receiving the dividend, Shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (where the shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account on the payout date.

The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website www.avthomas.in and also available on the website of the Central Deposito Services (India) Limited (CDSL) viz, www.evotingindia.com. The company has provided to its shareholders, remote e-voting facility in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and amendments thereto. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the e-voting facility. Members are informed that:

(i) The Cut-off date to determine eligibility to cast vote by electronic voting is Friday, the 15th July, 2022.

(ii) The e-voting period shall be open for three (3) days, commencing at 9.00A.M. (IST) on Tuesday, the 19th July, 2022 and ending at 5.00 P.M.(IST) on Thursday, the 21st July, 2022 for all the Shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting

(iii) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility or remote e-voting as well as voting in the general meeting. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. (iv) The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their

voting right during the AGM. A member may participate in the meeting even after

CDSL for e-voting the Shareholder can use the existing User ID and Password for

exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be entitled to (v) A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after despatch of the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the login-ID and Password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. If the Shareholder is already registered with

(vi) The Company has appointed Mr. V. Suresh, Practicing Company Secretary, Chennai as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and voting during the AGM in a fair and transparent manner. For detailed instruction pertaining to e-voting, members may please refer to the section

casting their votes through remote e-voting

Place: Chennai

New Delhi

'e-voting instructions' in notice of the Annual General Meeting. In case of gueries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions(FAQs) for the shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing- 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatial Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

The results of the voting will be declared within 3 days from the conclusion of the 87th Annual General Meeting (AGM). The declared results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.avthomas.in and on the website of CDSL. www.evotingindia.com for information of the shareholders. By the order of the Board

For A V Thomas and Company Limited

Ajit Thomas Date: 28.06. 2022 Executive Chairman

financialexp.epap.in

TDS on Dividend: Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of members w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct tax at source at the prescribed rates from dividend to be paid to members. The tax rate would vary depending on the

member but will include all TDS / TCS transactions of the member during the relevant financial year. The member is required to provide a self- declaration to this effect. Above documents can be provided either by sending an email to einward.ris@kfintech.com or by uploading the self-attested documents at https://ris.kfintech.com/form15 on or before Monday July 18, 2022. Any communication on the tax determination/deduction received post Monday, July 18, 2022 shall not be considered. In case TDS is deducted at a higher rate, an option is

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the 6th AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or during the AGM. By order of the Board of Directors

> Hitesh Kumar Jain Company Secretary

न्युनतम- 31.3

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 28 जून।

को यहां शपथ ग्रहण की।

वर्षीय न्यायमूर्ति शर्मा को शपथ

न्यायमूर्ति शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट

के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली

#### अधिकतम-42.2 सूर्योदय- 5:26

जनसत्ता, नई दिल्ली, 29 जून, 2022 3

# दिल्ली में कोरोना के 874 मामले, चार की मौत

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 28 जून।

घंटों में कोरोना के 874 नए मामले सामने आए और चार लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को कोरोना संक्रमण की दर 5.18 फीसद दर्ज की गई, जबिक एक दिन पहले

यानी सोमवार को कोरोना के 628 नए मामले आए थे और तीन लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को कोरोना संक्रमण की दर 8.06 फीसद

स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई। इसने कहा कि नए

पहुंची हुई है। दिल्ली में

राजधानी दिल्ली में बीते 24 17 जून को इनकी संख्या 190 जो ने कोरोना की रपट जारी नहीं

रिडिसिं

और संक्रमण दर 7.8 फीसद रही थी। शनिवार को 6 लोगों की मौत हुई थी। शुक्रवार को दिल्ली में

> फीसद रही थी। इस दिन इस बीमारी से केवल एक

कोई मामला भी सामने नहीं आया था।

उपमुख्यमंत्री की चिट्ठी पर उपराज्यपाल का जवाब

# भ्रष्टाचार की जांच बंद नहीं हुई, गुमराह करने वाले बयान न दें मंत्री

नहीं हुई है। जहां तक सेवा विभाग के अधिकार

का मामला है, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट

किया है और सेवा का दायरा उपराज्यपाल के

कार्य क्षेत्र में आता है। इस अधिकार को सप्रीम

कोर्ट ने 4 अगस्त, 2016 को ही स्पष्ट कर दिया

था। उन्होंने कहा कि सुशासन के हित में, मैं

आपसे आग्रह करता हं कि आप अपने मंत्रियों को

ऐसे निरर्थक बयान देने से रोकें जो गमराह करने

वाले और अवरोधक पैदा करने वाले हैं।

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 28 जून।

टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अस्पतालों की जांच के मामले में भेजी गई सवालों की चिट्ठी के बाद अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और सात अस्पतालों के मामले में अपना जवाब भेजा है।

उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में साफ किया है कि अस्पतालों की जांच का मामला पूर्व उपराज्यपाल ने कभी बंद नहीं किया था, इस मामले में दोबारा जांच शुरू करने का आरोप गलत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे भविष्य में संबंधित मंत्री को ऐसा व्यवहार न करने की सलाह दें। साथ ही

उपराज्यपाल ने अस्पतालों की जांच के मामले में मनीष सिसोदिया द्वारा उठा गए हर सवाल का

फिर शुरू हुआ टकराव!

उपराज्यपाल ने कहा कि यह दुखद और हैरान करने वाला है कि उपमुख्यमंत्री ने मामले पर तथ्यात्मक और कानूनी तौर पर गलत बयानी की है और वांछित प्रशासनिक कार्रवाई का गैर जरूरी तौर पर राजनीतिकरण किया।



सिसोदिया ने अपने पत्र में पूछा था कि किसके दबाव में आकर सक्सेना ने एक साल पुरानी शिकायत पर एसीबी से जांच कराने की अनुमति दी है जबिक उनके पूर्ववर्ती अनिल बैजल इसे बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुके थे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अस्पतालों के

उप मुख्यमंत्री ने इस बाबत बयान जारी कर आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। अब तक मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा ही भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की प्रतिबद्धता दिखाई और भविष्य में

भी भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई जारी रहेगी।

दिलाई। इस समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी के विधायक मार्च में न्यायमूर्ति डीएन पटेल सोमनाथ भारती और मदनलाल भी शामिल हए। इस दौरान वरिष्ठ न्यायाधीश एवं वकील भी मौजुद रहे। न्यायमूर्ति शर्मा इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दें रहे थे। केंद्र सरकार ने 19 जून को

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मंगलवार दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राज निवास में उनके स्थानांतरण की अधिसचना आयोजित एक समारोह में 60

सुर्यास्त- 19:23

जारी की थी। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया

की सेवानिवृत्ति के बाद से दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने 13 मार्च से 27 जून तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दीं। उन्हें अब उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

# उमस का असर : एक दिन में 300 मेगावाट मांग बढ़ी

# बिजली की माग का तीन साल का रेकार्ड

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 28 जून।

भीषण गर्मी और उमस की वजह से राजधानी में मंगलवार को बिजली की रेकार्ड तोड मांग दर्ज की गई। इससे पहले साल 2019 में बिजली की मांग का रेकार्ड ट्रटा था। दिल्ली राज्य भार प्रेषण केंद्र (स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर) के आंकडों पर नजर डालें तो मंगलवार दोपहर करीब 3:21 बजे बिजली की रेकार्ड मांग 7,601 मेगावाट दर्ज की गई थी। वहीं, साल 2019 में दो जुलाई को बिजली की

मांग 7,406 मेगावाट दर्ज की गई थी। इससे पता



मंगलवार दोपहर करीब 3:21 बजे बिजली की रेकार्ड तोड मांग 7,601 मेगावाट दर्ज की गई।

चलता है कि साल 2019 की तुलना में 200 से अधिक मेगावाट की मांग के साथ दिल्ली में बिजली की रेकार्ड मांग दर्ज की गई।

बिजली कंपनियों का दावा है कि भीषण गर्मी और उमस की वजह से उपभोक्ता बिजली के उपकरण खासकर एसी, कुलर व पंखे का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारण बिजली

की खपत बढ़ रही है। बिजली कंपनियों ने अनुमान लगाया था कि इस साल गर्मी अधिक पड़ने की वजह से बिजली की मांग 8,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है।

आंकडों पर नजर डालें तो एक दिन में राजधानी में बिजली की मांग में तकरीबन 350 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग बढ गई। बिजली की अधिकतम मांग सोमवार को 7,249 मेगावाट, मंगलवार को अधिकतम मांग 7.601 मेगवाट दर्ज की गई। इसी प्रकार न्यतनम मांग की बात करें तो राजधानी में सोमवार को 4,629 मेगावाट दर्ज की गई थी, जबिक मंगलवार को 4.920 मेगावाट दर्ज की गई।

## गर्मी और उमस ने किया बेहाल. 30 डिग्री से ऊपर न्यूनतम पारा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 28 जून।

उमस और भीषण गर्मी से दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। दिल्ली में बादलों की आवाजाही मंगलवार को सुबह से बनी हुई

थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस वजह से दिल्ली एनसीआर को दिनभर उमस और भीषण गर्मी का सामना पडा।

मौसम वैज्ञानिकों के मृताबिक एकाएक न्यूनतम तापमान में हुई

बढोतरी की वजह से यह हालात बने हैं। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमसान सामान्य से

चार डिग्री अधिक डिग्री 41.5 सेल्सियस दर्ज जबिक किया गया न्यूनतम तापमान डिग्री

सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक था। इस वजह से तापमान में नमी की अधिकतम मात्रा 64 और न्युनतमान मात्रा ५७ फीसद दर्ज की गई।

### पंजाब नैश्ननल बैंक 🕒 punjab national bank .. मरोसे का प्रतीका

प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं. ४, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

सार्वजनिक सूचना एआरसी/अनुमतिप्राप्त हस्तांतरी को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री

पंजाब नैशनल बैंक, एआरसी/अनुमतिप्राप्त हस्तांतरी आदि को 1 एनपीए खाता की बिक्री का प्रस्ताव देता है। विवरण के लिए कृपया बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना भाग https://www.pnbindia.in/Public-Notices.aspx देखें। सहायक महाप्रबंधक

# मटियाला की अनिधकृत कालोनियों के लिए 26.69 करोड़ रुपए मंजूर

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 28 जून।

दिल्ली सरकार मटियाला विधानसभा क्षेत्र में स्थित अनिधकत कालोनियों में विकास करवाएगी। यहां 19.46 किमी लंबाई की गलियों-सड़कों के साथ जलनिकासी के लिए नालियों आदि का निर्माण कार्य के लिए

KAMDHENU

भौतिक धारिता

GROUP

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 26.69 करोड़ रुपए के परियोजना कार्यों को मंजुरी दी। सिसोदिया ने कहा कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र में बेहतर जलनिकासी व गलियों को दुरुस्त करने पर काम होगा। उन्होंने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों को समय रहते पुरा किया जाए व यह ध्यान रखा जाए।

### का आरोप, फरार महबूब, इमरान के तौर पर की गई जनसत्ता संवाददाता है। वहीं वसीम की मां गुलबहार

पुलिसकर्मी पर पड़ोसियों को पीटने

नई दिल्ली, 28 जून।

हर्ष विहार थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस में तैनात एक पुलिसकर्मी पर पडोसियों से मारपीट का आरोप है। घटना सोमवार रात की है, उसी रात घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों की पहचान वसीम, उसके चाचा के बेटे सलीम,



फरार हो गया।

(50) बुरी तरह घायल हैं। हमले

के बाद आरोपी पुलिसकर्मी मौके से

### एस आर एफ लिमिटेड

सीआईएन: L18101DL1970PLC005197

पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयुर विहार, युनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयुर प्लेस, मयुर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली - 110091 कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम - 122003 दूरमाष संख्याः (+91–11) 49482870, (+91–124) 4354400 फैक्सः (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500

इमेलः cs@srf.com, वेबसाइटः www.srf.com

### वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बृहस्पतिवार, 21 जुलाई 2022 को 11:00 बजे पर्वाह, कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लाग होने योग्य प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सचीबद्धता विनियम, इनके साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020, 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021 तथा 02/2022 दिनांकित 5 मई 2022 (सामुहिक तौर पर 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) तथा सेबी के परिपत्र दिनांकित 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021 एवं 13 मई 2022 (सामृहिक तौर पर 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') अन्य ऑंडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम की सूचना दिनांकित 30 मई 2022 में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित कर दी गई हैं जिनका ईमेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 🖊 डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <u>www.srf.com</u> पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> क्रमशः पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल"), ई-वोटिंग एजेंसी, की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

कम्पनी अपने सदस्यों को 51वीं वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है एवं सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्य कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

- क) डीमैटरियलाइज्ड तीर पर, भौतिक तीर पर शेयर शेयरों को प्रतिरक्षित करने वाले तथा जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है. हेत रिमोट ई-वोटिंग निर्देश एवं सदस्यों द्वारा एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रणाली वार्षिक आम बैठक की सूचना का एक अभिन्न अंग हैं जो कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com एवं एनएसडीएल, ई-वोटिंग एजेंसी, की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित है।
- ख) सदस्यों के रिमोट ई-वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि (अर्थात रिकॉर्ड तिथि), बृहस्पतिवार, 14 जुलाई 2022 को कम्पनी की समता पूँजी में उनकी भागीदारी के अनुपात में होगा। कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनाता है, और कट-ऑफ तिथि (अर्थात बृहस्पतिवार, 14 जुलाई 2022) के अनुसार शेयर प्रतिरक्षित करता है, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर युजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- ग) रिमोट ई—बोटिंग पोर्टल सोमवार, 18 जुलाई 2022 को प्रातः 9:00 बजे से बुधवार, 20 जुलाई 2022 को सायं 5:00 बजे तक खुला रहेगा। ई-वोटिंग की अनुमति ऊपर उल्लिखित निर्धारित समय के उपरान्त नहीं होगी।
- घ) ई-वोटिंग से संबंधित यूजर आईडी एवं पासवर्ड सहित सूचना और निर्देश ईमेल के माध्यम से सदस्यों को भेज दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए इसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए। सदस्य ई-वोटिंग सुविधा हेत् एनएसडीएल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से संघटित डीमैट खाते के मौज़दा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं।
- ड) ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत को सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर ईमेल द्वारा अथवा टोल फ्री नंबर 18001020990 एवं 1800224430 पर संबोधित किया जा सकता है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन ("एफएक्यू") भी संदर्भित कर सकते हैं।

बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात भी 51वीं एजीएम में भाग ले सकते

संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित तौर पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के शीघ पश्चात प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम शीघ्र संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई एवं एनएसई को भी अग्रेषित किया जाएगा।

> कृते एसआरएफ लिमिटेड हस्ताक्षर/-

रजत लखनपाल

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) मैसर्स रानीसागर सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लेनदारों के व्यानाकर्षण के लिए रानीसागर सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड कार्पीरेट ऋणी के निगमन की तिथि व्ह प्राधिकार, जिसके अधीन कार्पोरेट ऋणी रजिस्ट्रार ऑफ कन्पनीज - जयपुर (राजस्थान)

आदेश की कॉपी के अनुसार)

23 जून, 2022 से 180वां दिन) IBBI/IPA-001/IP-P-02018/2020-2021/13158 न्तरिम समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के पास पता । 91, मोजी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर जिस्ट्रीकृत पता और ई-मेल ई-मेल : garima286@gmail.com पता : 81, मोजी कॉलोनी, मालबीय नगर, जयपुर अन्तरिम समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र–व्यवहार के ई-भेल : cirp.rccl@gmail.com 12 जुलाई 2022 (आईआरपी हारा आदेश प्राप्त करने दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तारीख की तिथि 28 जून, 2022 से 14वां दिन) न्तरिम समाधान व्यावसायिक हारा अभिनिरिचत इस स्तर पर लेनदारों का कोई वर्ग निर्धारित नहीं किया धारा २१ की लप-धारा (६क) की खण्ड (ख) के अधीन ानदारों के वर्ग, यदि कोई है। किसी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के लिए अभिलक्षित दिवाला व्यावशायिकों

 (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियाँ के ब्यौरे यहाँ उपलब्ध है https://www.ibbi.gov.in/home/downloads. वह शूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने रानीसागर सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेंड के विरुद्ध दिनांक 23 जुन, 2022 को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिवा है। मीशागर सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के सभी लेनदारों से अन्तरिम समाधान व्यावसायिक को प्रविष्टि सं. 10 के सामने उल्लिखत

ाते पर 12 जुलाई, 2022 को अध्यया उससे पूर्व सबूत सहित जपने दाये प्रस्तुत करने की जपेशा की जाती है।

वेतीय लेनवार राबत सहित अपने दावे केवल इलेक्टॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत करेंगे। न्य सभी लेनदार सबूत सहित अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, ढाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक मध्यमाँ से प्रस्तुत कर सकते हैं विष्टि सं 12 के सामने सुचीबद्ध किसी वर्ष का कोई वितीय लेनदार प्रविष्टि सं 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवाल शवसाविकों में से उस वर्ग (वर्ग निर्दिष्ट करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसन्द प्ररूप गर्क में

दावे के मिथ्या या श्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर शास्तियां लागू होंगी।

के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)

(क) सुलंगत प्ररूप और

तिथि : 28 जून, 2022

गरिमा डिग्गीवाल (अंतरिम समाधान पेशेवर) रानीसागर सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के संबंध में साईपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P-02018/2020-2021/13158

सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड

[कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L24219DL2006PLC145092] पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः जी-82, कीर्ति नगर, दिल्ली-110015

दूरभाषः +91-11-42083083; वेबसाइटः www.sircapaints.com; ईमेलः cs@sircapaints.com

### वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली कंपनी की सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक के शेयरधारकों को नोटिस

1. एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि सामान्य परिपत्र संख्या सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई

2022, सामान्य परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों ('अधिनियम') और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता दायित्व') के अनुपालन में सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड ('एसपीआईएल'/'कंपनी') की सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 25 जुलाई, 2022 को दोपहर 12:30 बजे किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट 17वीं एजीएम की सुचना के साथ केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी जाएगी. जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट के पास या 13 मई 2022 के एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र के अनसार संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट https://www.sircapaints.com/investors/#annual-report, स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट पर, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) की वेबसाइट https://www.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीका 17वीं एजीएम के नोटिस में दिया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपर्ति के लिए गिना जाएगा

भौतिक रूप या डीमैट फॉर्म में शेयर धारणकरने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है, वे आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व की केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) के पास einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल भेजकर 17वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की सूचना प्राप्त कर सकते हैं और/या अपना ई-मेल पता और बैंक खाता विवरण अपडेट करके वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं।

4. शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए गुरुवार, 26 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में इस आगामी 17वीं एजीएम में रु. 10 (दस रुपये) के अंकित मूल्य के रुपये 2.00 (दो रुपये मात्र) ('अंतिम लाभांश') प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान पर विचार, अनुमोदन और सिफारिश की है जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन होगा। अंतिम लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो घोषणा की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 18 जुलाई, 2022 तक सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर, जैसा भी मामला हो, में दर्ज होगा। अंतिम लाभांश का भगतान इलेक्टॉनिक रूप से विभिन्न ऑनलाइन ट्रांसफर मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है।

5. वित्त अधिनियम, 2020 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी संशोधनों के अनुसार, कंपनी को अपने सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश पर निर्धारित दरों पर कर कटौती करनी आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान

किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। 6. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम ('इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट') से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने मैंडेट को अद्यतन

नहीं किया है. निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज भेजकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट को पंजीकृत कर सकते हैं: (क) फोलियो नं.

(ख) अनुरोध पत्र

(ग) स्वप्रमाणित पैन और पते का प्रमाण

(घ) बैंक विवरण जैसेः खाता संख्या, बैंक खाता प्रकार, बैंक का नाम और शाखा, आईएफएससी कोड जिसमें लाभांश प्राप्त किया जाना है:

(ङ) यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित हैं, तो सदस्य या प्रथम धारक के नाम वाले कैंसिल्ड चेक की स्व सत्यापित स्कैन की गई प्रति।

7. डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट अपडेट करें।

8. उपरोक्त सचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

9. एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 शेयरधारकों को लाग काननों के अनसार उनके पंजीकृत ईमेल पते पर यथासमय भेजी जाएगी।

बोर्ड के आदेशानसार कृते सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड

स्थानः दिल्ली

कामधेनु लिमिटेड CIN:L27101HR1994PLC092205 पंजी. कार्यालय: 2रा तल, टावर ए, बिल्डिंग नं. 9, डीएलएफ सायवर सिटी,

फेज-Ш, गुरुग्राम (हरियाणा)-122002 Ph.: 91-124-4604500 Email: kamdhenu@kamdhenulimited.com Website: www.kamdhenulimited.com

विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाने वाली कम्पनी की 28वीं वार्षिक आम-सभा के विषय में सचना एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

(एमसीए) द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 तिथि 5 मई, 2020, 21/2021 तिथि 14 दिसम्बर, 2021 तथा 02/2022 तिथि 5 मई, 2022 तथा सेबी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई 2020, सेबी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2021/11, 15 जनवरी, 2021 तथा सेबी सर्क्युलर नं. | सेबी/एचओ/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2022/62, 13 मई, 2022 (सामृहिक रूप से ''सर्क्युलर्स'' वर्णित) के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के लागू होने वाले सभी प्रावधानों के अनुपालन में कामधेन लिमिटेड के सदस्यों की 28वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएबीएम) द्वारा गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को 11.30 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में आयोजित की जाएगी जिसमें 28वीं एजीएम की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में कम्पनी ऐसे सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिरिसपैन्ट्रस (डीपी'ज) के पास पंजीकृत हैं, को 28वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ भेजेगी। |जिन सदस्यों ने कम्पनी/आरटीए/डीपी'ज के पास अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हों तथा जो सुचना तथा वित्त वर्ष| 2021-22 का वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के इच्छुक हों, वे नीचे वर्णित निर्देशों का अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडैट करा

cs@kamdhenulimited.com पर अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास einward.ris@kfintech.com पर मेल करें (प्रपत्र आईएसआर-1 कम्पनी की वेबसाईट www.kamdhenulimited.com पर उपलब्ध है।)

निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 में विवरणों को पंजीकृत/अपडैट कराने के लिये आवेदन के साथ अन्य संबंधित प्रपत्र

डीमैट पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के माध्यम से ईमेल पता अपडैट करा डीमैट धारिता 28वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.kamdhenulimited.com तथा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल

स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्युरिटीज

डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराई जाएगी। कम्पनी द्वारा 28वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) सविधा उपलब्ध कराई जायेगी। अतिरिक्त रूप से, कम्पनी एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) द्वारा मतदान की सविधा उपलब्ध कराएगी। रिमोट ई-वोटिंग, ई-वोटिंग से संबंधित निर्देश तथा वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने के निर्देश 28वीं एजीएम की सिचना में दी जायेगी।

सदस्यगण ध्यान रखें कि 30 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने 28वीं एजीएम में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन रु. 10 प्रति के रु.1 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम 2020 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 के बाद घोषित लाभांश सदस्यों के लिये कर-योग्य होगी तथा कम्पनी को लाभांश से निर्धारित दरों पर श्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना होगा। एफवाई 2021–22 के लिये लाभांश, यदि स्वीकृत होता है, का भुगतान उन सदस्यों को निर्धारित दरों पर कर की कटौती के बाद किया जायेगा जिनके नाम 26 जुलाई, 2022 को व्यावसायिक अवधि की पूर्णता पर सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे। सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 27 जुलाई, 2022 से 28 जुलाई, 2022 (दोनों दिवस सहित) तक लाभांश एवं एजीएम

कि उद्देश्य से बंद रहेंगे। बैंक खाता में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिये शेयर धारकों से आग्रह है कि डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में डीपी 'ज के पास तथा कम्पनी के आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास einward.ris@kfintech.com पर निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 मे अपने बैंक खाता के विवरणों को कृपया अपडैट करा लें।

KAMDHENU /

निदेशक मंडल के आदेश से कामधेनु लिमिटेड के लिये खेम चंद

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी KAMDHENU

PAINTS

Colour स्थानः गुरुग्राम

हैं परन्तु उन्हें एजीएम में पुनः वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिनांकः 28 जून 2022

वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) एवं कम्पनी सचिव

दिनांक: 28 जून, 2022

(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

www.readwhere.com

KAMDHENU

PAS 10000

स्थानः गुड़गांव, हरियाणा

KAMDHENU

तिथि: 28.06.2022

कोविड-19 के 1447 नए मामले थे, मंगलवार को दर्ज की गई थी। संक्रमण दर 5.98 संक्रमण की दर

5.18 फीसद

मामले 16,866 नमूनों के परीक्षण थी। जबिक गुरुवार को कोविड-में सामने आए हैं। बहरहाल, नए 19 के 1,934 नए मामले सामने मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 19,32,900 हो गई से दिल्ली में किसी की मौत का है और मृतक संख्या 26,260 पर

कोविड-19 मामलों में वृद्धि के साथ ही निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या में लगभग शत फीसद वृद्धि हुई है। 28 जून को बढ़कर 385 हो गई।

नई दिल्ली

रविवार को दिल्ली सरकार की। जबिक शनिवार को कोरोना के 666 नए मामले सामने आए थे

मरीज की जान गई

आए थे और संक्रमण दर 8.10 फीसद रही। इस दिन महामारी

उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार के बीच

गुमराह करने वाले बयान से बचें।

निर्माण में अनियमितता की शिकायत की थी।

